

बरेली...ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के साथ किराना व्यापारी गिरफ्तार: शिकायत पर ड्रग विभाग ने की छापेमारी, 430 ऑक्सीटोसिन की बायल बरामद

बरेली के कैंट थाना क्षेत्र स्थित एक किराना की दुकान पर शुक्रवार शाम ड्रग विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद किया है। इंजेक्शन बेचने के आरोप में दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग जानवरों को लगाकर अतिरिक्त दूध निकालने के लिए किया जाता है। जो जानवरों की सेहत पर खराब असर डालता है। इस प्रतिबंधित इंजेक्शन को बेचने के आरोप में ड्रग विभाग ने आरोपित दुकानदार संजय केसरवानी को उठाकर पूछताछ कर रही है। वहीं इंजेक्शन को लैब जांच के लिए भेजा गया है और उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है।

परचून की दुकान की आड़ में बेच रहा था इंजेक्शन

ड्रग विभाग को पिछले काफी समय से शिकायत मिली रही थी कि कैंट सदर बाजार में संजय नाम का व्यक्ति परचून की दुकान की आड़ में प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बेच रहा है। ड्रग इंस्पेक्टर विवेक कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने अपना मुखबिर लगाया तो इस बात की पुष्टि हो गई और उनका मुखबिर दुकानदार से इंजेक्शन भी खरीदा। इस दौरान यह भी पता चला संजय दुकान के साथ ही घर में भी इंजेक्शन का स्टॉक कर रखा है। जिसके बाद शुक्रवार को उन्होंने पुलिस के साथ संजय की दुकान और घर पर छापेमारी की तो कुल 430 ऑक्सीटोसिन की बायल बरामद हुईं। एक बायल में 100 एमएल इंजेक्शन होता है। जिसकी कीमत करीब 2 हजार रुपये है। फिलहाल टीम ने माल जब्त कर लिया है और संपल लैब के लिए भेज दिया है। उनका कहना है कि रिपोर्ट आते ही आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल उससे पूछताछ चल रही है। छापेमारी के दौरान सहायक आयुक्त ड्रग्स संजय कुमार, और बबीता रानी के साथ टीम में अन्य लोग भी शामिल रहे।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/bareilly/news/bareilly-grocery-trader-arrested-with-oxytocin-injection-drug-department-raided-on-complaint-430-barrels-of-oxytocin-recovered-129156517.html>